



PNC Infratech Limited

An ISO 9001 : 2015 Certified Company

Ref No: PNC/SE/93/25-26

Date: 11.2.2026

To,
The Manager
Department of Corporate Services
BSE Limited
Floor 25, P.J. Towers,
Dalal Street, Mumbai-400 001
Scrip code:539150

To,
The Manager
Listing Department
National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza, BandraKurla Complex,
Bandra (East), Mumbai-400 051
NSE Symbol: PNCINFRA

Dear Sir,

Sub: Newspaper publication pertaining to Unaudited Financial Results of the Company for the Quarter and Nine Months ended December 31, 2025

Pursuant to Regulations 30 and 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed copies of newspaper advertisements pertaining to unaudited financial results of the Company for the quarter and nine months ended December 31, 2025 published on February 11, 2026 in English and regional newspapers namely- Financial Express (English) and Jansatta (For Hindi).

This is for your information and records.

Thanking you,

For PNC Infratech Limited

Tapan Jain
Company Secretary & Compliance Officer
ICSI M. No.: A22603



Corporate Office : PNC Tower,
3/22-D, Civil Lines, Bypass Road,
NH-2, Agra-282002

Tel. : 91-562-4054400 (30 Lines)
91-562-4070000 (30 Lines)

Fax : 91-562-4070011

Email : ho@pncinfratech.com

Regd. Office : NBCC Plaza, Tower II,
4th Floor, Pushp Vihar, Sector-V, Saket
New Delhi-110017 (India)

Tel. : 91-11-29574800 (10 Lines)
91-11-29566511, 64724122

Fax : +91-11-29563844

Email : delhioffice@pncinfratech.com
Web. : www.pncinfratech.com
CIN : L45201DL1999PLC195937



Regional Office-1.
71, M G Road,
Agra

Reliance Syndicate

POSSESSION NOTICE (FOR MOBILE/IMMOVABLE PROPERTY)


Whereas, the undersigned being the Authorised Officer of the Canara Bank under the Securitisation Act and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (Act 54 of 2002) and in exercise of powers conferred under section 13(12) read with rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued demand notice calling upon the borrower/guarantor to repay the amount mentioned in the notice along with interest & expenses within 60 days from the date of receipt of the said notices.

The borrower/guarantor having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower/guarantor and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him/her under section 13(4) of the said Act read with rule 8 & 9 of the said Rules. The Borrower's attention is invited to provisions of sub-section (8) of section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets. The borrower/guarantor in particular and the public in general are hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of the **Canara Bank**. The borrower's attention is invited to provisions of sub-section (8) of section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets.

Name of Borrowers/ Guarantors	Description of Properties	Demand Notice Date	Posses- sion Notice Date	Amount Due (Rs.)
Branch: Sikandra Bodla, Agra				
Borrower: M/s Firaa Autocare Pvt Ltd; through directors: Shri Akash Kumar Singh S/o Shri Harish Kumar Kardam, Shri Yuvraj Singh S/o Shri Harish Kumar Kardam, Guarantor: Shri Harish Kumar Kardam S/o Shri Mahesh Chand Kardam, Shri Akash Kumar Singh S/o Shri Harish Kumar Kardam, Shri Yuvraj Singh S/o Shri Harish Kumar Kardam	Residential Property situated at HIG House No. 5, Friends Colony, Shahganj, Lohamandi, Agra, Area-297.28 Sq mtr., in the name of Shri Harish Kumar Kardam S/o Late Shri Mahesh Chand Kardam, Bounded as: East: 60/Wd Road, West: Other's Property, North: LIG H. No. 6, South: LIG H. No. 4	05/12/2025	09/02/2026	21,48,571.35 + interest & Other expenses

Date: 11-02-2026

Authorised Officer



Zonal Office: First Floor, Jai Kartar Bhawan, Near Circuit House, Ferozepur Road, Ludhiana, 141001; TEL: 0161-2495472; E-Mail: recovery_idh@mahabank.co.in, legal_idh@mahabank.co.in Head Office: 'LOKMANGAL', 1501, Shivaji Nagar, PUNE – 411 005

SYMBOLIC POSSESSION NOTICE

Whereas, the undersigned being the Authorized Officer of the **BANK OF MAHARASHTRA**, under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002, and in exercise of the powers conferred under Sub-Section (12) of Section 13 read with Rule 8 of the Security Interest (Enforcement) Rule, 2002, issued a Demand Notice calling upon the **Borrower(s)/Guarantor(s)** to repay within 60 days from the date of receipt of the said Notice.

The Borrower(s) having failed to repay the amount, notice is hereby given to the **Borrower(s)/Guarantor(s)** and the public in general that the undersigned has taken **SYMBOLIC POSSESSION** of the property/ies described herein below in exercise of powers conferred on him/her under Section 13(4) of the said Act read with Rule 8 of the said rules on the respective days as mentioned before the borrowers.

The **Borrower(s)/Guarantor(s)** particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property/ies and any dealings with the property/ies will be subject to the charge of **Bank of Maharashtra** for an amount herein below mentioned.

Borrower's attention is invited to provisions of Sub-Section (8) of Section 13 of the Act in respect of time available to redeem the secured assets.

Name of the Branch & Borrower(s) / Guarantor(s)

BRANCH OFFICE: GURDASPUR

Equitable mortgage of immovable property constructed upon land

SYMBOLIC

1. Borrower/s: Mr Munish Kumar S/o Yusaf, Address: HNO 369/7, Balmiki Mohalla, Geeta Bhawan Road, Gurdaspur 143521, 2. Co Borrower/s: Smt Jolina W/o Munish, Address: HNO 369/7, Balmiki Mohalla, Geeta Bhawan Road, Gurdaspur 143521, 3. Co Borrower/s: Yunas Gill S/o Chirag, Address: HNO 369/7, Balmiki Mohalla, Geeta Bhawan Road, Gurdaspur 143521, District Gurdaspur as per Jamabandi for the years 1979-80 as well as revenue estate of Gurdaspur, HB No 337 Tehsil and Road, Gurdaspur 143521, 3. Co Borrower/s: Yunas Gill S/o Chirag, registered sale deed bearing vasika no 3975 dated 16.10.1985 in favor of Mr. Yunas S/o Sh. Chirag and Bounded as under- North: property of Chiman Lal adm 60'00", East: Property of Hans Raj adm 30'00", West: Street adm 30'00", South: Street 12 feet wide adm 60'00" Cersal Asset Id- 200055894138, Security Interest ID-400055620059

DATED: 06.02.2026

PLACE: LUDHIANA

AUTHORIZED OFFICER

relipay A BRAND OF RBL

Regd Office: UG-5, Relipay House, Plot No. 42 DLF Industrial Area Kirti Nagar, West Delhi, New Delhi, India, 110015

Website: www.rnfiservices.com | Phone: 011-49207777

EXTRACT OF UNAUDITED CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED 31-12-2025

(Rs. In Lakhs except for per share Data)

Particulars Quarter ended 31/12/2025 Quarter ended 30/09/2025 Corresponding Quarter ended 31/12/2024 For the Nine months period ended 31/12/2025 For the Nine months period ended 31/12/2024 Year ended 31/03/2025

(Unaudited) (Unaudited) (Unaudited) (Unaudited) (Unaudited) (Audited)

Total income from operations 25,854.99 22,419.49 24,492.68 73,336.77 70,588.64 92,336.06

Net profit for the period before tax 1,258.06 1,174.31 758.69 3,220.24 1,956.25 2,674.21

Net profit for the period after tax 952.53 878.66 597.79 2,408.30 1,474.59 2,009.91

Total comprehensive Income for the period 956.36 885.24 598.56 2,410.78 1,469.35 2,005.43

After tax 2,506.07 2,495.27 2,495.27 2,506.07 2,495.27 2,495.27

paid up equity share capital (face value per share Rs 10/- fully paid up) 2,495.27 2,495.27 2,495.27 2,495.27 2,495.27 2,495.27

Other equity (excluding Revaluation Reserve) 8,717.42

Earnings per Equity Share (Face Value of Rs 10/- each) (not annualized for the quarters) 3.35 3.14 2.37 8.56 6.16 7.97

Basic 3.35 3.14 2.37 8.56 6.16 7.97

Diluted -in Rs 3.35 3.14 2.37 8.56 6.16 7.97

Key Numbers of Standalone Financial Results

Particulars Quarter ended 31/12/2025 Quarter ended 30/09/2025 Corresponding Quarter ended 31/12/2024 For the Nine months period ended 31/12/2025 For the Nine months period ended 31/12/2024 Year ended 31/03/2025

(Unaudited) (Unaudited) (Unaudited) (Unaudited) (Unaudited) (Audited)

Total income from operations 7,635.79 6,966.87 7,786.73 21,383.28 21,016.89 28,233.47

Net profit for the period before tax 743.38 767.81 478.78 2,053.03 1,397.63 1,844.42

Net profit for the period after tax 561.42 581.81 360.20 1,552.44 1,058.25 1,413.33

Total comprehensive income for the period 565.90 584.57 363.73 1,560.43 1,056.52 1,411.03

Notes: The above is an extract of the detailed format of Unaudited Financial Result for Quarterly & Nine Months ended 31.12.2025 filed with the stock exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly & Nine Months Unaudited Financial Result are available on the stock exchange websites www.nseindia.com and on the website of company www.rnfiservices.com.



By Order of the Board Of Directors

Kirandeep Singh Anand

Director

DIN:10362287

Date: 11.02.2026

Place: New Delhi



PNC INFRATECH LIMITED

Registered Office : NBCC Plaza, Tower II, 4th Floor, Pushp Vihar, Sector-5, New Delhi - 110017

CIN : L45201DL1999PLC195937, Email : complianceofficer@pncinfratech.com, Website : www.pncinfratech.com

Possession Notice (For Immovable Property) Rule 8-(1)

Whereas, the undersigned being the Authorized Officer of IIFL Home Finance Limited (Formerly known as India Infoline Housing Finance Ltd.) (IIFL-HFL) under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of powers conferred under section 13(12) read with Rule 8 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued demand notice calling upon the borrower/guarantor to repay the amount mentioned in the notice along with interest & expenses within 60 days from the date of receipt of the said notices.

The borrower/guarantor having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower/guarantor and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him/her under section 13(4) of the said Act read with rule 8 & 9 of the said Rules. The Borrower's attention is invited to provisions of sub-section (8) of section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets. The borrower/guarantor in particular and the public in general are hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to charge of Central Bank of India branches. The Borrower attention is invited to provisions of sub-section (8) of section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets.

Name of the Borrower(s) / Co-Borrower(s) All that piece and parcel of Property out of the Khetwali no. 856, Kheton no. 904, Killa no. 153/63(4-10), Situated in Mauja M.C.Meham, Rohtak, Haryana, INDIA, 12412 Area Administering (IN SQ. FT.) .Property type: Land_Area, Built Up_Area, Carpet Area Property Area: 540.00, 537.00,429.00

Date of Demand Notice 01/02/2026 Date of Possession 12-02-2026 Date of Possession 06/02/2026

For further details please contact to Authorised Officer at Branch Office: SCO-419, First Floor, Sector-7, Main Kamal, Karnal-132001 or Corporate Office: Plot No.98, Phase-IV, Udyog Vihar, Gurgaon, Haryana

Sd/- Authorised Officer, For IIFL Home Finance Ltd.

"IMPORTANT"

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

FORM NO. URC-2

Advertisement giving notice about registration under Part I of Chapter XXI of the Act (Pursuant to section 374(b) of the Companies Act, 2013 and rule 4(1) of the Companies (Authorised to Register) Rules, 2014)

1. Notice is hereby given that in pursuance of sub-section (2) of section 366 of the Companies Act, 2013, an application is proposed to be made after fifteen days hereof but before the expiry of thirty days hereinafter to the Registrar at Central Registration Centre (CRC), Indian Institute of Corporate Affairs (IICA), Plot No. 6, 7 & 8, Sector-5, IMT Manesar, District Gurgaon (Haryana), PIN Code – 122050 that Trust, may be registered under Part I of Chapter XXI of the Companies Act, 2013, as a company limited by guarantee.

2. Principal objects of the company as follows:

➤ To establish, setup, and run in any part of India institutes, training centers, online training platforms, video based learning for professional, technical, vocational, schools or higher education in every field of science, commerce, arts, management, engineering, law, banking, insurance, finance, medicine, hospitality, tourism, computers, performing arts, mental health or any other type of education be imparted by conducting regular, part-time classes.

➤ To establish, maintain, subscribe or to subsidies or become a member of training institutions, research laboratories, research institutions and experimental experiments

➤ To set up training, quality control, process development, technology, platforms, common facility centres and other infrastructural activities for the proper rehabilitation/upliftment of disabled persons.

3. A copy of the draft Memorandum and Articles of Association of the proposed company may be inspected at the office at C-106 2ND FLOOR GREATER KAILASH PART 1, 110048, Delhi, India.

4. Notice is hereby given that any person objecting to this application may communicate their objection in writing to the Registrar at Central Registration Centre (CRC), Indian Institute of Corporate Affairs (IICA), Plot No. 6, 7 & 8, Sector-5, IMT Manesar, District Gurgaon (Haryana), PIN Code – 122050, within twenty-one days from the date of publication of this notice, with a copy to the company at its registered office.

Dated this 11TH day of February 2026

Name(s) of Applicant

1.AVARTH SINGH AHLUWALIA

2.DIMPLE KAUR MALHOTRA



**REGIONAL OFFICE:
73, HAZRATGANJ
LUCKNOW-226001**

**RULE 8(1)
POSSESSION NOTICE
(FOR IMMOVABLE PROPERTY)**

the undersigned being the authorized officer of the Central Bank of India having its Central Office at Chandernagore, Nariman Point, Mumbai 400021 and Branch office amongst others, at the mentioned branch under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act [Act, 2002 (54 of 2002)] and in exercise of powers conferred under section 13(12) read with rule 8 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002, issued Demand Notice as detailed here in below in calling upon the borrower to repay the amount mentioned in the notice within 60 days from

